



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 अक्टूबर, 2022

आश्विन 22, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग-2

संख्या 1357/49-2-2022-26(10)-2018 टी0सी0

लखनऊ, 14 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प०आ०-651

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 389-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 366-सी/12-सी-3-36-71, दिनांक 4 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वाक्त अधिसूचना, में शीर्षक "उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल" के अधीन उपसंजात होने वाली विद्यमान क्रम संख्या 11, 11 (क) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्या के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"11(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, सहकारी बैंकों (उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड एवं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश) की

भाँति उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के क्षेत्रान्तर्गत समस्त सहकारी संस्थाओं से अध्यायन प्राप्त करने के पश्चात् बैंकिंग वैयक्तिक चयन संस्थान (आई0बी0पी0एस0) के माध्यम से सीधी भर्ती के विभिन्न पदों हेतु सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण करेगा।”

आज्ञा से,  
बी0 एल0 मीणा,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1357 /XLIX-2-2022-26(10)-2018 T.C., dated October 14, 2022 :

No. 1357 /XLIX-2-2022-26(10)-2018 T.C.

*Dated Lucknow, October 14, 2022*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) read with rule 389-A of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 and section 21 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 366-C/XII-C-3-36-71, dated March 4, 1972, as amended from time to time.

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification, the existing serial no. 11 appearing under the heading “U.P. Co-operative Institutional Service Board” shall be re-numbered as 11 (a) and *after* the serial number as so re-numbered, the following serial no. and entries shall be *inserted*, namely :-

“11 (b) U.P. Co-operative Institutional Service Board will complete the entire selection procedure through Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), in the same manner as the Co-operative Bank (Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited, Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Limited and District Co-operative Bank Limited, Uttar Pradesh), after receiving requisition from all Co-operative Societies in the purview of Sewa Mandal for direct recruitment of different posts.”

By order,  
B. L. MEENA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 715 राजपत्र-2022-(1111)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० सहकारिता-2022-(1112)-100 प्रतियाँ-((कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।